



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092024-257087  
CG-DL-E-11092024-257087

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 11, 2024/भाद्र 20, 1946

No. 521]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 11, 2024/BHADRA 20, 1946

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 सितम्बर, 2024

सा.का.नि. 563(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिक्का निर्माण (भारतीय स्टेट बैंक मुंबई मुख्य शाखा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मारक सिक्का जारी करना) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. सिक्के का मूल्यवर्ग.-** भारतीय स्टेट बैंक मुंबई मुख्य शाखा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए एक साल में मूल्य एक सौ रुपये वर्ग का सिक्का ढाला जाएगा।

**3. सिक्के की विमाएं और संरचना.-** नियम 2 में उल्लिखित मूल्य वर्ग के सिक्के, निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात्:-

सिक्के का मूल्य वर्ग	आकार और बाह्य व्यास	दांतेदार किनारे की संख्या	धातु संयोजन
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	चतुर्धातुक मिश्र धातु चांदी - 50 प्रतिशत तांबा - 40 प्रतिशत निकिल - 05 प्रतिशत जस्ता - 05 प्रतिशत

4. डिज़ाइन.— सिक्के का डिज़ाइन वह होगा जो इन नियमों की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. मानक वजन और अनुज्ञात उपचार.— भारतीय स्टेट बैंक मुंबई मुख्य शाखा भवन के शताब्दी वर्ष के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए नियम 2 में निर्दिष्ट मूल्य वर्ग के ढाले गए सिक्के का मानक वजन और ऐसे सिक्के को बनाने में अनुज्ञात उपचार वह होगा जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

**पहली अनुसूची**  
(नियम 4 देखें)

**एक सौ रुपये**

**अग्र भाग:**

सिक्के के इस भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह स्तम्भ शीर्ष होगा, जिसके नीचे “सत्यमेव जयते” लेख उत्कीर्णित होगा, उसकी बाईं परिधि पर देवनागरी लिपि में “भारत” शब्द और दाईं परिधि पर अंग्रेजी में “INDIA” शब्द होगा। सिंह स्तम्भ शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक “₹” और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य “100” भी होगा।

**पृष्ठ भाग:**

सिक्के के इस भाग पर एस बी आई मुंबई मुख्य शाखा के भवन का चित्र होगा। एस बी आई मुंबई मुख्य शाखा भवन के चित्र के बाईं तथा दाईं ओर अंतर्राष्ट्रीय अंकों में क्रमशः 1924 तथा 2024 उत्कीर्ण होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में “एस बी आई मुंबई मुख्य शाखा भवन शताब्दी वर्ष” उत्कीर्ण होगा तथा सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में “CENTENARY YEAR SBI MUMBAI MAIN BRANCH BUILDING” उत्कीर्ण होगा।

**दूसरी अनुसूची**  
(नियम 5 देखें)

सिक्के का मूल्यवर्ग	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संयोजन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
एक सौ रुपये	35 ग्राम	चांदी के लिए 1/500वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् चांदी का अंश प्रति 1000 में 498 से 502 के बीच हो सकेगा।	1/100वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 34.65 ग्राम से 35.35 ग्राम तक हो सकता है।

[फा. सं. 02/03/2024-सिक्का]

अपर्णा भाटिया, सलाहकार

**MINISTRY OF FINANCE**  
**(Department of Economics Affairs)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th September, 2024

**G.S.R. 563(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Coinage (Issue of Commemorative Coin on the occasion of State Bank of India, Mumbai Main Branch Building Centenary Year) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of coin.**-The coin of one hundred rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of State Bank of India, Mumbai Main Branch Building Centenary Year.

3. **Dimension and composition of coin.**-The denomination of the coin mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	Circular 44 millimeter	200	Quaternary Alloy Silver - 50 per cent. Copper - 40 per cent. Nickel - 05 per cent. Zinc - 05 per cent.

4. **Design.**- The design of the coin shall be as specified in the First Schedule annexed to these rules.

5. **Standard weight and remedy allowed.**- The standard weight of the coin of denomination referred in rule 2 shall be coined to commemorate on the occasion of State Bank of India, Mumbai Main Branch Building Centenary Year completion and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule annexed to these rules.

**THE FIRST SCHEDULE**

*[See rule 4]*

**ONE HUNDRED RUPEES**

**OBVERSE:**

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend “सत्यमेव जयते” inscribed below, flanked on the left periphery with the word “भारत” in Devnagri script and on the right periphery with the word “INDIA” in English. It shall also bear the Rupee symbol “₹” and denominational value “100” in the international numerals below the Lion Capitol.

**REVERSE:**

The face of the coin will bear the image of SBI Mumbai Main Branch Building in the centre of the coin. The year 1924 and 2024 in the international numerals shall be inscribed on left and right side of the image of SBI Mumbai main branch building respectively. The text “एस बी आई मुंबई मुख्य शाखा भवन शताब्दी वर्ष” shall be inscribed in Devnagari script on the upper periphery of the coin and “CENTENARY YEAR SBI MUMBAI MAIN BRANCH BUILDING” shall be inscribed in English on the lower periphery of the coin.

**THE SECOND SCHEDULE***[See rule 5]*

Denomination of the coin	Standard weight	Remedy allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
One Hundred Rupees	35 Grams	1/500 <sup>th</sup> plus or minus for Silver, that is to say the Silver content may vary from 498 to 502 per 1000.	1/100 <sup>th</sup> plus or minus, that is to say weight could be 34.65 grams to 35.35 grams.

[F. No. 02/03/2024-Coin]

APARNA BHATIA, Adviser